

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 1981/माघ 10, 1902
No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 1981/MAGHA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(साध्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1981

सा. का. नि. 38 (अ)/आय. वस्तु/गन्ना :—केन्द्रीय सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1968 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (1) में उल्लिखित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, गन्ना की आधारिक न्यूनतम कीमत 13-00 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर जो गन्ना की 8.5 प्रतिशत या उससे कम चीनी की वसूली में संबद्ध है और जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपाब्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को, गन्ना की उस न्यूनतम कीमत के रूप में तुरन्त नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखानों के स्वामियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा कारखाने के द्वार पर या किसी क्रय केंद्र पर परिदत्त गन्ना

के लिए चीनी वर्ष 1980-81 के लिए 30 सितम्बर, 1981 तक संवेद्य होगा किन्तु यह कीमत उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संवेद्य रिबेट के अधीन होगी ।

अनुसूची

क्रम सं०	कारखाने का नाम	गन्ने की प्रति बिन्दन कीमत रुपये में
(1)	(2)	(3)
1	गोदावरी दुधाना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, देवनन्दा, पोस्ट आफीम पठारी, जिला परभनी (महाराष्ट्र)	13.00

[संख्या 3-1/80-एस. पी. आई (डी-2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1981

G.S.R. 38(E).—/Ess. Com./Sugarcane—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below of sugar with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price of sugarcane which shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or at any purchasing centre for the sugar year 1980-81 until the 30th September, 1981, subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the factory	Minimum Sugarcane price in rupees per quintal
(1)	(2)	(3)
1.	Godawari Dudhana Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., Deonandra, Post Office Pathari District Parbhani (Maharashtra).	13.00

[No. 3-1/80-SPY (D-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.